

=====

AVYAKT MURLI

25 / 10 / 75

=====

25-10-75 ओम शान्ति अव्यक्त बापदादा मधुबन

बेहद की शिक्षिवा समझ वैराग्य वृत्ति को धारण करो

पंजाब, गुजरात जोन की टीचर्स के साथ अव्यक्त बापदादा के उच्चारें हुए
मधुर महावाक्य:-

अपने को मास्टर विश्व की शिक्षक समझती हो अथवा अपने-अपने
सेवाकेन्द्रों कि मैं फलाने स्थान की टीचर हूँ, यह बुद्धि में रहता है? यह
बुद्धि में रहना चाहिए कि मैं विश्व की निमित्त बनी हुई मास्टर विश्व-
शिक्षक हूँ! हद याद रहती है या बेहद? बेहद का नशा और बेहद की सेवा
के प्लैन चलते हैं या अपने स्थान के प्लैन चलते हैं? बेहद का नशा रहेगा
तब विश्व की मालिक बनेंगी। अगर हद का नशा और हद की स्मृति रहती
है, तो विश्व के मालिकपन के संस्कार नहीं बनेंगे, फिर तो छोटा-छोटा राजा
बनेंगे। विश्व-महाराजन की प्रालब्ध पाने की निशानियाँ अभी से ही दिखाई
देंगी। जैसे कोई भी पहली हल करानी होती है तो उसकी निशानियाँ पूछते
हैं जिससे कैसी भी कठिन पहली हो, वह जल्दी हल हो जाती है। तो यहाँ
भी कौन क्या बनता है, यह पहली है, तो इन निशानियों से परख सकता है।

अपने आपको भी मालूम पड़ सकता है कि मैं अपने पुरुषार्थ प्रमाण क्या बन सकती हूँ।

टीचर्स स्वतन्त्र हैं, कोई कर्म-बन्धन नहीं सिर्फ सेवा का बन्धन है। वह बन्धन, बन्धन नहीं, लेकिन बन्धन-मुक्त करने वाला है। जब सब बातों में स्वतन्त्र हो, तो टीचर्स की बेहद की बुद्धि होनी चाहिए। जहाँ तक हो सके वहाँ तक बेहद की सेवा में सहयोग देने का चांस स्वयं लेना चाहिए। क्योंकि जितना स्वयं बेहद की सेवा का अनुभव करेंगे उतना ही जास्ती अनुभवीमूर्त कहलायेंगी। अनुभवी-मूर्त की ही वैल्यू होती है, जैसे पुराने जमाने के जो अनुभवी होते हैं उनकी राय की वैल्यू होती है कि यह पुराने अनुभवी हैं। तो यहाँ भी अनुभवी बनना चाहिए। स्वयं चांस लेना चाहिए। प्रोग्राम प्रमाण करना उसमें आधा हिस्सा अपना होता, आधा दूसरे का हो जाता है। जैसे कमाई का शेयर (हिस्सा) होता है। तो प्रोग्राम प्रमाण करने में आधा हो जाता है। जो स्वयं चांस लेते वह फुल ही मिलता है। ऐसे नहीं कहो कि मुझे योग्य समझा जाए। मैं स्वयं बनकर दिखलाऊँ। आफरीन उसको मिलती है जो स्वयं को ऑफर करता है। यह कभी नहीं सोचना या इन्तज़ार करना कि मुझे चान्स मिलेगा तो करूंगी या मुझे आगे बढ़ाया जायेगा तो बढ़ूंगी। यह भी आधार हुआ। टीचर तो स्वयं आधारमूर्त हैं। तो जो आधारमूर्त हैं वह किसका आधार नहीं लेते। यह भी लॉटरी नहीं गँवाना। स्वयं, स्वयं को ऑफर करो और बेहद के अनुभवी बनो। बेहद के बुद्धिवान बनो। चांस लेते जाओ तो चांस मिलता जायेगा। इसको कहेंगे

मास्टर विश्व-शिक्षक। बाकी है अपने-अपने सेन्टर की शिक्षक। जैसे बाप को देखा एक स्थान मधुबन में रहते चारों ओर के प्लान बनाते थे, न कि सिर्फ मधुबन के। ऐसे ही निमित्त कहाँ भी रहती हो, लेकिन बेहद के प्लैन्स बनाती रहो। ऐसी हैं सब बेहद की बुद्धि वाली टीचर्स? चारों ओर चक्कर लगाती हो कि सिर्फ अपनी एरिया में चक्कर लगाती हो? जो जितना ईश्वरीय सेवा-अर्थ चक्कर लगाते हैं उतना ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। अच्छा, यह तो हुई बेहद की टीचर्स के निमित्त। अभी तो भविष्य प्लैन बताया।

बेहद की वैराग्य वृत्ति को टीचर्स अपने में अनुभव करती हैं? बेहद की वैराग्य वृत्ति है कि अपने सेन्टर्स व जिज्ञासुओं से लगाव नहीं। जब इस लगाव से बेहद का वैराग्य होगा तब जयजयकार होगी। सब स्थूल, सूक्ष्म साधनों से बेहद का वैराग्य। ऐसी धरनी बनी है अथवा थोड़ा सेन्टर्स से चेन्ज करें तो हिलेंगी? जिज्ञासुओं पर तरस नहीं पड़ेगा? जरा भी उन्हीं के प्रति संकल्प नहीं आयेगा? ऐसे अपने को चेक करना चाहिए कि ऐसा पेपर आये तो नष्टोमोहा हैं? वह है लौकिक सम्बन्ध और यह है सेवा का सम्बन्ध। यदि उस सम्बन्ध में मोह जाये तो आप लोग वाणी चलाती हो। यह अलौकिक सेवा का सम्बन्ध है, इसमें यदि आपका मोह होगा तो आने वाले स्टूडेण्ट्स इस पर वाणी चलायेंगे। तो अपनी महीन रूप से चेकिंग करो कि अभी कोई ऑर्डर हो तो एवररेडी हैं? इस सेन्टर की सर्विस अच्छी है, तो सर्विस अच्छी से भी लगाव तो नहीं है? जब सबसे उपराम हों तब

बेहद की वैराग्य वृत्ति कहेंगे। अपने शरीर से भी उपराम। जैसे कि निमित्त सेवा-अर्थ चलाते हैं।

लगाव की निशानी यह है कि बुद्धि बार-बार बाप से हट कर उस तरफ जाये तो समझो लगाव है। अपने आप से भी लगाव न हो। जो अपने में विशेषता है, कोई में हैंडलिंग पाँवर अच्छी है वा कोई में वाणी की पाँवर है तो कहेंगी मैं ऐसी हूँ। परन्तु यह तो बापदादा की देन है। अपने ज्ञान की विशेषता, विशेषता कोई भी हो, उससे भी लगाव नहीं। इसमें भी अभिमान आ जाता है इससे तो यह बुद्धि में रखो कि - “यह बाप से मिला हुआ वर्सा है। जो सर्व-आत्माओं के प्रति हमें मिला है, जो दे रहे हैं, हम तो निमित्त हैं।” ऐसे बेहद के वैराग्य वृत्ति का संगठन टीचर्स का होना चाहिए। जो चलने से, देखने से और बोलने से सबको महसूस हो कि ये बेहद के वैरागी हैं। ज्ञान से सेवा करने में होशियार हैं, यह तो सब महसूस करते हैं। अब बेहद के वैराग्य का अनुभव करो, जो दूसरे भी अनुभव करें। अच्छा।

महावाक्यों की विशेष बातें

1. टीचर्स स्वतन्त्र हैं, कोई कर्म-बन्धन नहीं, सिर्फ सेवा का बन्धन है। यह बन्धन भी बन्धन-मुक्त करने वाला है।
2. टीचर्स को जहाँ तक हो सके, वहाँ तक बेहद की सेवा में सहयोग देने का चांस स्वयं लेना चाहिये तभी अनुभवी-मूर्त बन सकेंगी। अनुभवी-मूर्त की वैल्यू होती है।

3. जो जितना ही ईश्वरीय सेवा-अर्थ चक्कर लगाते रहते हैं उतना ही वे चक्रवर्ती राजा बनते हैं।
4. जब अपने सेन्टर्स व जिज्ञासुओं के लगाव से बेहद का वैराग्य होगा तब जयजयकार होगी।
5. अपने में कोई विशेषता है तो उससे भी लगाव नहीं होना चाहिये। बुद्धि में समझना है कि यह बाप से मिला हुआ वर्सा

QUIZ QUESTIONS

- प्रश्न 1 :- निमित्त टीचर्स बहनों को बाबा ने कौन सा टाइटल दिया है और क्यों ?
- प्रश्न 2 :- टीचर्स को बेहद की सेवा का चांस क्यों लेना चाहिए ?
- प्रश्न 3 :- टीचर्स ब्रह्मा बाप को बेहद की सेवा अर्थ किस प्रकार फॉलो कर सकती है ?
- प्रश्न 4 :- लगाव की मुख्य निशानी क्या है ? इसे किस प्रकार कम किया जा सकता है ?

प्रश्न 5 :- बेहद की वैराग्य वृत्ति को बढ़ाने के लिए बाबा ने क्या समझानी दी है?

FILL IN THE BLANKS:-

{ ईश्वरीय, अनुभव, बढ़ाया, वैराग्य, आँकर, चान्स, चक्कर, इन्तज़ार, अनुभव, मालूम, चक्रवर्ती, मैं, बेहद, स्वयं, पुरुषार्थ }

1 जो जितना _____ सेवा-अर्थ _____ लगाते हैं उतना ही _____ राजा बनते हैं।

2 अपने आपको भी _____ पड़ सकता है कि _____ अपने _____ प्रमाण क्या बन सकती हूँ।

3 यह कभी नहीं सोचना या _____ करना कि मुझे _____ मिलेगा तो करूंगी या मुझे आगे _____ जायेगा तो बढ़ूंगी।

4 अब _____ के _____ का अनुभव करो, जो दूसरे भी _____ करें।

5 स्वयं, _____ को _____ करो और _____ के अनुभवी बनो।

सही गलत वाक्यों को चिन्हित करे:-

1 :- विश्व-महाराजन की प्रालब्ध पाने की निशानियाँ अभी से ही दिखाई देंगी।

2 :- जब इस लगाव से बेहद का वैराग्य होगा तब हाहाकार होगी।

3 :- हृद के बुद्धिवान बनो। चांस लेते जाओ तो चांस मिलता जायेगा।

4 :- अनुभवी-मूर्त की ही वैल्यू होती है।

5 :- अपने में कोई विशेषता है तो उससे भी लगाव नहीं होना चाहिये। इसमें भी अभिमान आ जाता है।

QUIZ ANSWERS

प्रश्न 1 :- निमित्त टीचर्स बहनों को बाबा ने कौन सा टाइटल दिया है और क्यों ?

उत्तर 1 :- निमित्त टीचर्स बहनों को बाबा ने मास्टर विश्व की शिक्षक का टाइटल दिया है क्योंकि विश्व-महाराजन की प्रालब्ध पाने की निशानियाँ अभी से ही दिखाई देंगी।

① बाबा पूछते हैं कि स्वयं को विश्व की शिक्षक समझती हो अथवा अपने-अपने सेवाकेन्द्रों की मैं फलाने स्थान की टीचर हूँ ? यह बुद्धि में रहता है।

② बुद्धि में रहना चाहिए कि मैं विश्व की निमित्त बनी हुई मास्टर विश्व-शिक्षक हूँ! हृद की याद नहीं बेहद की याद रहे, केवल अपने स्थान के नहीं, बुद्धि में बेहद का नशा और बेहद की सेवा के प्लैन चलते रहे।

③ बेहद का नशा रहेगा तब विश्व की मालिक बनेंगी। अगर हृद का नशा और हृद की स्मृति रहती है, तो विश्व के मालिकपन के संस्कार नहीं बनेंगे, फिर तो छोटा-छोटा राजा बनेंगे।

प्रश्न 2 :- टीचर्स को बेहद की सेवा का चांस क्यों लेना चाहिए ?

उत्तर 2 :- टीचर्स को बेहद की सेवा का चांस इसलिए लेना चाहिए क्योंकि:-

① टीचर्स स्वतन्त्र हैं, कोई कर्म-बन्धन नहीं सिर्फ सेवा का बन्धन है। वह बन्धन, बन्धन नहीं, लेकिन बन्धन-मुक्त करने वाला है।

② जब सब बातों में स्वतन्त्र हो, तो टीचर्स की बेहद की बुद्धि होनी चाहिए। जितना स्वयं बेहद की सेवा का अनुभव करेंगे उतना ही जास्ती अनुभवीमूर्त कहलायेंगी।

③ जहाँ तक हो सके वहाँ तक बेहद की सेवा में सहयोग देने का चांस स्वयं लेना चाहिए। प्रोग्राम प्रमाण करना उसमें आधा हिस्सा अपना होता, आधा दूसरे का हो जाता है। जो स्वयं चांस लेते वह फुल ही मिलता है।

प्रश्न 3 :- टीचर्स ब्रह्मा बाप को बेहद की सेवा अर्थ किस प्रकार फॉलो कर सकती है ?

उत्तर 3 :- टीचर्स बेहद की सेवा अर्थ ब्रह्मा बाप को फॉलो करने प्रति समझानी देते हैं कि :-

① जैसे बाप(ब्रह्मा बाबा) को देखा एक स्थान मधुबन में रहते चारों ओर के प्लान बनाते थे, न कि सिर्फ मधुबन के ऐसे ही निमित्त कहाँ भी रहती हो, लेकिन बेहद के प्लैन्स बनाती रहो।

② ऐसी सब बेहद की बुद्धि वाली टीचर्स बन चारों ओर का चक्कर लगा सेवा करो नाकि सिर्फ अपने एरिया में चक्कर लगा। टीचर तो स्वयं आधारमूर्त हैं। तो जो आधारमूर्त हैं वह किसका आधार नहीं लेते।

प्रश्न 4 :- लगाव की मुख्य निशानी क्या है ? इसे किस प्रकार कम किया जा सकता है ?

उत्तर 4 :- लगाव की मुख्य निशानी यह है कि बुद्धि बार-बार बाप से हट कर उस तरफ जाये तो समझो लगाव है।

इसे कम करने के लिए मुख्य बातों का ध्यान रखना है:-

① अपने आप से भी लगाव न हो।

② जो अपने में विशेषता है, कोई में हैंडलिंग पाँवर अच्छी है वा कोई में वाणी की पाँवर है तो कहेंगी मैं ऐसी हूँ। परन्तु यह तो बापदादा की देन है।

③ बुद्धि में रखो कि - “यह बाप से मिला हुआ वर्सा है। जो सर्व-आत्माओं के प्रति हमें मिला है, वो(परमात्मा) दे रहे हैं, हम तो निमित्त हैं।”

प्रश्न 5 :- बेहद की वैराग्य वृत्ति को बढ़ाने के लिए बाबा ने क्या समझानी दी है?

उत्तर 5 :- बेहद की वैराग्य वृत्ति अर्थात:-

① अपने सेन्टर्स व जिज्ञासुओं से भी लगाव नहीं। सब स्थूल, सूक्ष्म साधनों से बेहद का वैराग्य।

② ऐसी धरनी बनी है अथवा थोड़ा सेन्टर्स से चेन्ज करें तो हिलेंगी? जिज्ञासुओं पर तरस नहीं पड़ेगा? जरा भी उन्हीं के प्रति संकल्प नहीं आयेगा?

③ यह अलौकिक सेवा का सम्बन्ध है, इसमें यदि आपका मोह होगा तो आने वाले स्टूडेण्ट्स इस पर वाणी चलायेंगे। तो अपनी महीन रूप से चेकिंग करो कि अभी कोई ऑर्डर हो तो एवररेडी हैं?

④ इस सेन्टर की सर्विस अच्छी है, तो सर्विस अच्छी से भी लगाव तो नहीं है, जब सबसे उपराम हों तब बेहद की वैराग्य वृत्ति कहेंगे। अपने शरीर से भी उपराम। जैसे कि निमित्त सेवा-अर्थ चलाते हैं।

FILL IN THE BLANKS:-

{ ईश्वरीय, अनुभव, बढ़ाया, वैराग्य, आक्र, चान्स, चक्कर, इन्तज़ार, अनुभव, मालूम, चक्रवर्ती, मैं, बेहद, स्वयं, पुरुषार्थ }

1 जो जितना _____ सेवा-अर्थ _____ लगाते हैं उतना ही _____ राजा बनते हैं।

ईश्वरीय / चक्कर / चक्रवर्ती

2 अपने आपको भी _____ पड़ सकता है कि _____ अपने _____ प्रमाण क्या बन सकती हूँ।

मालूम / मैं / पुरुषार्थ

3 यह कभी नहीं सोचना या _____ करना कि मुझे _____ मिलेगा तो करूंगी या मुझे आगे _____ जायेगा तो बढ़ूंगी।

इन्तज़ार / चान्स / बढ़ाया

4 अब _____ के _____ का अनुभव करो, जो दूसरे भी _____ करें।

बेहद / वैराग्य / अनुभव

5 स्वयं, _____ को _____ करो और _____ के अनुभवी बनो।

स्वयं / ऑफर / बेहद

सही गलत वाक्यों को चिन्हित करे:-

1 :- विश्व-महाराजन की प्रालब्ध पाने की निशानियाँ अभी से ही दिखाई देंगी। **【✓】**

2 :- जब इस लगाव से बेहद का वैराग्य होगा तब हाहाकार होगी। **【✗】**

जब इस लगाव से बेहद का वैराग्य होगा तब जयजयकार होगी।

3 :- हृद के बुद्धिवान बनो। चांस लेते जाओ तो चांस मिलता जायेगा। 【✖】

बेहृद के बुद्धिवान बनो। चांस लेते जाओ तो चांस मिलता जायेगा।

4 :- अनुभवी-मूर्त की ही वैल्यू होती है। 【✔】

5 :- अपने में कोई विशेषता है तो उससे भी लगाव नहीं होना चाहिये। इसमें भी अभिमान आ जाता है। 【✔】